

## 'COP no longer fit for purpose'

Agencies  
LONDON

The United Nations' COP climate talks are "no longer fit for purpose" and need an urgent overhaul, key experts including a former UN secretary general and former UN climate chief have said, stated a BBC report.

In a letter to the UN, senior figures say countries should not host the talks if they don't support the phase out of fossil energy. This week the Azerbaijani president told world leaders gathered in Baku for COP29 that natural gas was a "gift from God" and he shouldn't be blamed for bringing it to market.

The UN's climate talks have made significant progress in recent years, despite the fact that unanimous agreement is needed among almost 200 countries to take action. The Paris climate agreement,

signed in 2015, outlines a long-term plan to rein in rising temperatures, as countries strive to keep that rise under 1.5C this century.

But while the authors of this letter recognise the achievements, they feel that the slow-moving COP process is "no longer fit for purpose" in dealing with a fast-moving climate crisis.

"It is crucial structure simply cannot deliver the change at exponential speed and scale, which is essential to ensure a safe climate landing for world leaders gathered in Baku for COP29 that natural gas was a "gift from God" and he shouldn't be blamed for bringing it to market.

The UN's climate talks have made significant progress in recent years, despite the fact that unanimous agreement is needed among almost 200 countries to take action. The Paris climate agreement,

by almost 1%. Scientists say these emissions need to fall by 42% by the end of this decade to avoid a global temperature rise in excess of 1.5C, considered the threshold to far more dangerous impacts than we are seeing at present.



Climate activists protest at COP29 meeting venue in Baku - AFP

### AVAILABLE FINANCE LIMITED

CIN: L67120MP1993PLC007481  
Registered Office: Agarwal House, 5, Yeshwant Colony Indore-462003 MP. Phone No. 0731-4774000  
Fax: 0731-4041913 | Email: info@availablefinance.com

#### EXTRACT OF UN-AUDITED STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR/QUARTER ENDED 30<sup>th</sup> SEPTEMBER 2024

Particulars	Standalone				Consolidated			
	Quarter Ended		Half Year Ending		Quarter Ended		Half Year Ending	
	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.06.2023
Total income from operations	14.42	14.09	13.65	28.51	14.42	14.09	13.65	28.51
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.16	7.78	8.38	13.93	6.16	7.78	8.38	13.93
Net Profit/(Loss) for the period (after tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.16	7.78	8.38	13.93	6.16	7.78	8.38	13.93
Net Profit/(Loss) for the period (after tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.16	7.78	8.38	13.93	6.16	7.78	8.38	13.93
Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	128.99	54.91	(21.19)	183.91	195.58	3636.73	1519.85	5986.30
Equity Share Capital (Rs. 10/- each)	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37
Reserves (excluding Retained Earnings as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	713.53	708.92	689.88	713.53	110106.75	108062.60	68605.45	110106.75
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.05	0.06	0.07	0.10	15.72	34.75	15.23	50.47

Note 1) The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Quarterly Financial Results filed with the Registrar of Companies, Indore (SEBI (LODR) Regulations, 2015).  
Note 2) The full form of the Quarterly/Half Yearly Un-Audited Financial Results for the period ending on September 30, 2024 are available on the website of Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website at [www.availablefinance.com](http://www.availablefinance.com).

For AVAILABLE FINANCE LIMITED  
Sd/- RAKESH SAHU  
WHOLE-TIME DIRECTOR & C.O  
DIN: 08433972

Place: Indore Date: 14/11/2024

### SHREEOSWAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED

CIN: L01111MP2017PLC04596  
Registered Office: Oswal House, Opposite Balkalbairagi College, Nasirabad Highway, Village - Kanwari, (Neemuch - 458441) M.P.  
Tel. +91-7423-297511 | Email: oswalgroups2002@gmail.com | Website: [www.oswalseeds.com](http://www.oswalseeds.com)

#### Extract of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended on 30th September, 2024 (Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended		Year to date	Quarter ended		Year to date
		30-09-2024	30-09-2023		30-09-2024	30-09-2023	
1	Total Income from operations (net)	838.98	670.01	5934.49	6769.30	6556.34	14644.42
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	104.18	72.41	422.17	45.50	89.25	-313.83
3	Net Profit/(Loss) for the period (after Exceptional and/or Extraordinary items)	104.18	72.41	422.17	45.50	89.25	-313.83
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	74.88	52.22	304.55	32.12	64.41	-239.43
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	74.88	52.22	304.55	32.12	64.41	-239.43
6	Equity Share Capital	1829.40	1524.50	1829.40	1829.40	1524.50	1829.40
7	Reserves (excluding Revaluation reserves as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.08	0.06	0.33	0.04	0.07	-0.26
	Diluted:	0.08	0.06	0.33	0.04	0.07	-0.26

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the quarter / half year ended 30th September, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full form of the Un-Audited Financial Results for the quarter/half year ended 30th September, 2024 is available on the website of the Company [www.oswalseeds.com](http://www.oswalseeds.com) and National stock exchange [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For SHREEOSWAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED

Sd/- SANJAY KUMAR BAGAI  
Chairman and Managing Director  
DIN: 07921083

Date: 14.11.2024 Place: Neemuch

### Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited

(Formerly known as Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Private Limited)  
Manufacturer of HDPE/PP Woven Sacks/FIBCO/Jumbo Bags BOPP/Non Woven Bags/Tarpoline  
CIN: U25204MP2001PLC014855

Registered Office: Plot No. 192, Sector-1, Pithampur, Dist. Dhar (M.P.), Phone: (07292) 417750-60 (EPBX), Fax: (07292) 417761  
Corporate Office: SIB House, E-34, Colony, Indore-462001 (M.P.), Phone: 0731-4061957, 4217400-30 (EPBX)  
Fax: 0731-4069782, E-mail: [info@tirupatibalajee.net](mailto:info@tirupatibalajee.net), Website: [www.tirupatibalajee.net](http://www.tirupatibalajee.net)

#### Extract of Detailed Consolidated Unaudited Financial Results for the 2<sup>nd</sup> Quarter and Half Year ended 30<sup>th</sup> September, 2024, filed with Stock Exchanges

S. No.	Particulars	Quarter Ending		Half Year Ending		Year Ending
		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.06.2023	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income	15,785.22	14,516.62	11,729.99	30,301.84	20,576.38
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax, Exceptional and/or Extraordinary items	1,138.17	1,060.36	1,720.70	2,198.53	2,542.84
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,138.17	1,060.36	1,720.70	2,198.53	2,542.84
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	906.71	792.03	1,329.95	1,698.74	2,025.14
5	Total Comprehensive Income for the Period	911.84	796.41	1,267.28	1,708.25	2,041.31
6	Equity Share Capital (Numbers)	8,15,70,852	6,68,20,852	6,43,55,619	8,15,70,852	6,43,55,619
7	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing & discontinued operations)	1.01	0.97	2.45	1.98	3.40
	Diluted:	1.01	0.97	2.45	1.98	3.40

Notes:  
1. The above financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles outlined in the Indian Accounting Standards (Ind AS) as specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, along with the relevant rules issued thereunder and other generally accepted accounting principles in India.

2. The above Financial Results is an extract of the detailed format of results for the 2<sup>nd</sup> Quarter and Half Year ended on 30th September, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Financial Results for the 2<sup>nd</sup> Quarter and Half Year ended on 30th September, 2024 are available on the website of BSE ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and NSE ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and also on the Company's Website ([www.tirupatibalajee.net](http://www.tirupatibalajee.net)).

3. The Company is engaged in the business of manufacturing of FIBC bags. As the Company business activities falls within a single segment, there is no separate reportable segment as per Ind AS 108 'Operating Segments'.

4. The above results were reviewed by the Audit Committee of the Company and thereafter approved by the Board of Directors in their meetings held on 14th November, 2024.

5. The Standalone Financial Results of the Company for the 2<sup>nd</sup> Quarter and Half Year ended on 30th September, 2024 are available on the Company's Website [www.tirupatibalajee.net](http://www.tirupatibalajee.net) and on the website of BSE ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and NSE ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)). Key Numbers of Standalone Financial Results are given below:

S. No.	Particulars	Quarter Ending		Half Year Ending		Year Ending
		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.06.2023	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
a)	Turnover / Revenue	10,636.23	8,965.35	8,288.01	19,801.58	13,491.21
b)	Profit Before Tax	531.53	549.44	717.74	1,060.97	1,068.26
c)	Profit After Tax	411.06	392.91	491.72	803.97	814.30
d)	Total Comprehensive Income	412.73	393.99	427.78	806.72	798.99

For & on behalf of the Board of Directors  
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited  
Sd/-  
Binod Kumar Agarwal  
(Managing Director)  
DIN: 00322336

Place : Pithampur, Dhar Date: 14.11.2024

## PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT DIVISION SARADPUR

[epheadsaradpur@gmail.com](mailto:epheadsaradpur@gmail.com)  
Notice Inviting Tender (2<sup>nd</sup> Call)

N.I.T. No: 01/2024-25

Date: 14.11.2024

Online Tenders for the following work have been processed in the e-Procurement System Portal <https://www.mptenders.gov.in/> and Design, Construction and Refurbishing of Piped Water Supply scheme under Jal Jeevan Mission at different Villages of Division Saradpur Dist. Dhar based on Tube wells/Dugwell including Construction of RCC Sanitary Dug well, installation of electric submersible/centrifugal water motor pumps, construction of R.C.C. Overhead tanks, pumpwells, Fabrication, supply, pump house, Renovation of O.A.T., pump house, laying and joining of rising main, distribution pipe line system, household tap connections, electric power connections at Tube wells/Pumpwells including cost of all material and labour with testing commissioning thereafter 90 days of successful Trial Run of entire scheme. Details as below -

Tender ID	Name of Work	Probable Amount of Contract	Earnest Money Deposit (EMD) (Rs. in Rupees)	Cost of Bid Document (Rs. in Rupees)	Category of Contractor	Period of Completion (in Months)
2024_PHEd_382266_1	Gandwani	363.30 Lakh	3,63,300/-	15000/-	Centralized New Registration in PWD	180 days including rainy season with 90 days trial of completed schemes

Document Download / Sale End Date : 20.11.2024 17:30  
Bid Submission End Date : 20.11.2024 17:30  
Bid Opening Date : 22.11.2024 11:00

The tender document can be purchased only online from the above website after making online payment using ITZ Cash Card, ATM cum Debit Card or Internet Banking Account.

Detailed N.I.T. and other details can be viewed on the above-mentioned portal.

Executive Engineer  
Public Health Engineering Department  
Division Saradpur (M.P.)

G-19017

"स्वच्छता ही सेवा"

## ALPA LABORATORIES LIMITED

33/2 A B Road Pigmbarau, Indore - 453446  
Tel. No. 0731-4294367 Fax No. 0731-4294444 Website: [www.alpalabs.in](http://www.alpalabs.in) CIN No. L85190MP1989PLC004446

#### Extracts of Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30.09.2024

S. No.	Particulars	Standalone (Rs. in Lacs except EPS)				Consolidated (Rs. in Lacs except EPS)			
		Quarter Ended		Year to date	Year to date	Quarter Ended		Year to date	Year to date
		30.09.2024	30.06.2024			30.09.2024	30.06.2024		
1	Total Income from Operations (Net)	3184.84	2660.39	3534.74	5845.23	6521.62	12361.29	10232.34	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	959.23	510.63	573.88	1469.86	873.71	2067.44	1589.02	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	959.23	512.45	573.88	1473.56	873.71	2067.44	1589.02	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	762.80	512.45	573.88	1277.12	873.71	1677.77	1258.27	
5	Total Comprehensive Income for the period	762.80	512.45	578.46	1277.12	878.29	1685.93	1237.29	
6	Equity Share Capital	2104.00	2104.00	2104.00	2104.00	2104.00	2104.00	2104.00	
7	Reserves (Excluding Revaluation reserves as per Balance Sheet) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year	-	-	-	-	-	14,093.20	12,348.70	
8	Earnings per share before and after extraordinary items (Face Value of Rs. 10 Each) BASIC EPS	3.63	2.44	2.75	6.07	4.17	8.01	5.88	
9	Earnings per share before and after extraordinary items (Face Value of Rs. 10 Each) DILUTED EPS	3.63	2.44	2.75	6.07	4.17	8.01	5.88	

Notes : a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange Websites [WWW.BSEINDIA.COM](http://WWW.BSEINDIA.COM) AND [WWW.NSEINDIA.COM](http://WWW.NSEINDIA.COM). The same may also be accessed on [WWW.ALPA.LABS.IN](http://WWW.ALPA.LABS.IN).  
b) The impact on net profit/loss to total comprehensive income and any other relevant financial item(s) due to change in accounting policies shall be disclosed by means of foot note.  
c) Some of the figures have been regrouped/reclassified as per the IND AS Applicability.

Place : Pigmbarau, Rau Date: 14th November, 2024

For Alpa Laboratories Limited  
Mehendra Singh Chawla - Director  
DIN No. 00328558

## CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

Registered & Corporate Office : 502, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Park, Mumbai-400013  
Circle Office : 9-B, 2nd floor, Pusa Road, Rajinder Place, New Delhi-110006

#### APPENDIX - IV-A (See proviso to rule 8 (6) and 9 (1)) Sale notice for sale of immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and 9(1) of the Security Interest Act (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Constructive/physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Capri Global Capital Limited Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on dates below mentioned, for recovery of amount mentioned below due to the Capri Global Capital Limited Secured Creditor from Borrower mentioned below. The reserve price, EMD amount and property details mentioned below.

SR.	1. BORROWER(S) NAME	DESCRIPTION OF THE NOTICED PROPERTY	1. DATE & TIME OF E-AUCTION	2. RESERVE PRICE
1.	1. Mr. Ashok Kumar Sabhani ("Borrower")	All that piece and parcel of land and building, the property being Unit No. 118 Paks & 47/2 Paks, Nazul Block No. 88, Ward No. 37, Sindhu Samrat Dahar Jain Vihar, According to Sindhi Colony Galt No. 66 Khawda, Area 750 Sq. Ft. (69.70 Sq. Mts.), Built Up Area is Ground Floor is 69.70 Sq. Mts. & First Floor Area is 69.70 Sq. Mts., situated at Sindhi Colony, Khandwa Tehsil & Dist. Khandwa, Madhya Pradesh - 459001	1. DATE & TIME OF E-AUCTION: 11.00 AM on 12.12.2024 (Between 3.00 P.M. to 4.00 P.M.)	1. RESERVE PRICE: Rs. 1,70,00,000/- (Rupees Seventeen Lacs Only).
2.	2. Mrs. Muskan Sabhani (Co-borrower)	Plot No. 80400000771867 (New)	2. LAST DATE OF SUBMISSION OF BIDS WITH KYC: 31.12.2024	2. EARNED MONEY DEPOSIT: Rs. 1,70,00,000/- (Rupees One Lakh Seventy Thousand Only).
3.	3. Seven Lacs Fifty Two Thousand Five Hundred Fifty Five Only as per Seven Lacs Fifty Five Only as per	Plot No. 80400000771867 (New)	3. DATE OF INSPECTION: 30.11.2024	3. INCREMENTAL VALUE: Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Thousand Only)

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Capri Global Capital Limited Secured Creditor's website i.e. [www.Capriglobal.in/auction/](http://www.Capriglobal.in/auction/)

TERMS & CONDITIONS OF ONLINE E-AUCTION SALE:-

- The Property is being sold on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE IS WITHOUT RECOURSE BASIS". As such sale is without any kind of warranties & indemnities.
- Particulars of the property / assets (viz. extent & measurements) specified in the E-Auction Sale Notice has been stated to the best of information of the Secured Creditor and Secured Creditor shall not be answerable for any error, misstatement or omission. Actual extent & dimensions may differ.
- E-Auction Sale Notice issued by the Secured Creditor is an invitation to the general public to submit their bids and the same does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation on the part of the Secured Creditor. Interested bidders are advised to peruse the copies of title deeds with the Secured Creditor and to conduct own independent enquiries (due diligence about the title & present condition of the property / assets and claims / dues affecting the property before submission of bids).
- Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website <https://www.aarfaesi.auctioneering.net> or Auction Tiger Mobile App provided by the service provider M/s eProcurement Technologies Limited, Ahmedabad who shall arrange to coordinate the entire process of auction through the e-auction platform.
- The bidders may participate in the auction for bidding from their place of choice. Internet connectivity shall have to be ensured by bidder himself. Secured Creditor / service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash, own power failure etc.
- For details, help, procedure and online bidding on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider M/S eProcurement Technologies Ltd. Auction Tiger, Ahmedabad (Contact no. 078-61200531/07865959/5958/57594/-), Mr. Ramprasad Sharma Mob. 990-



---